



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2001/पौष 21, 1922

No. 17]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2001/PAUSA 21, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2001

सं. 1/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पश्चात् किया गया है या करने का लोप किया गया है, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 में,—
  - (क) नियम 49 के उपनियम (1) के खंड (ड) के उपखंड (ii) में, "इस बाबत समुचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश" शब्दों के स्थान पर "इस बाबत अधिकारी द्वारा पारित आदेश या ऐसी तारीख तक जिसको सभी शोध का संदाय कर दिया जाता है इनमें से जो भी पश्चात्कथित हो" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ख) नियम 173छ में, उपनियम (1) के खंड (ड) में "इस बाबत समुचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश" शब्दों के स्थान पर "इस बाबत अधिकारी द्वारा पारित आदेश या ऐसी तारीख तक जिसको सभी शोध का संदाय कर दिया जाता है इनमें से जो भी पश्चात्कथित हो" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 201/28/2000-सी एक्स 6]

पी.के. सिन्हा, अवर सचिव

**टिप्पणी :**—मूल नियम दिनांक 28 फरवरी, 1944 की अधिसूचना सं. IV डी-सी. ई के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और इसे बाद में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 55/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) तारीख 26-12-2000 सा.का.नि. सं. 930 (अ) तारीख 26-12-2000 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2001

**No. 1/2001-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (First Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 1944—
  - (a) in rule 49, in sub-rule (1), in clause (e), in sub-clause (ii), for the words “order passed by the proper officer in this regard”, the words “order passed by the proper officer in this regard or till such date on which all the dues are paid, whichever is later”;
  - (b) in rule 173G, in sub-rule (1), in clause (e), for the words “order passed by the proper officer in this regard”, the words “order passed by the proper officer in this regard or till such date on which all the dues are paid, whichever is later”.

[F. No.201/28/2000-CX.6]

P. K. SINHA, Under Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. IV D-CE, dated the 28th February, 1944 and subsequently amended by Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 55/2000-CE (N.T.) dated 26th December, 2000 under GSR 930 (E) dated 26th December, 2000.